

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67.]

भोपाल, शनिवार दिनांक 27 जनवरी 2018—माघ 7, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65 एनएन-03-2017-पांच-99.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् धार जिला धार के माह जनवरी 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

स. क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् धार जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	पर्वतसिंह चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	बिहारीलाल डोडिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	पुष्पा बालकृष्ण चावड़ा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	भूरीबाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	मनीष प्रधान	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कमल दुबे एडवोकेट	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	लक्ष्मीबाई नरोले	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	पार्षद	पार्षद	7	सात	नीलू गनाव्वा मावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9	पार्षद	पार्षद	8	आठ	सिद्धार्थ भूरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10	पार्षद	पार्षद	9	नौ	हुकुम लश्करी	भारतीय जनता पार्टी
11	पार्षद	पार्षद	10	दस	शिखा राहुल वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12	पार्षद	पार्षद	11	ग्यारह	जया बबलु कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13	पार्षद	पार्षद	12	बारह	विपिन राठौर	भारतीय जनता पार्टी
14	पार्षद	पार्षद	13	तेरह	रवि मेहता	भारतीय जनता पार्टी
15	पार्षद	पार्षद	14	चौदह	मसीत अली (कल्लू नेता)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16	पार्षद	पार्षद	15	पंद्रह	कौसर शकील खान	निर्दलीय
17	पार्षद	पार्षद	16	सोलह	वाकीफ मो.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18	पार्षद	पार्षद	17	सत्रह	कालीचरण सोनवानिया	भारतीय जनता पार्टी
19	पार्षद	पार्षद	18	अठारह	सपना रिकु यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20	पार्षद	पार्षद	19	उन्नीस	राजेश सिसोदिया	भारतीय जनता पार्टी
21	पार्षद	पार्षद	20	बीस	हेमलता जयराज रिकु भाभी	भारतीय जनता पार्टी
22	पार्षद	पार्षद	21	इक्कीस	अनिता ओमप्रकाश अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
23	पार्षद	पार्षद	22	बाईस	आकाश सोनी	भारतीय जनता पार्टी
24	पार्षद	पार्षद	23	तेईस	नेहा रजत प्रजापति	निर्दलीय
25	पार्षद	पार्षद	24	चौबीस	भाभी कुसुम राठौर	भारतीय जनता पार्टी
26	पार्षद	पार्षद	25	पच्चीस	श्रीमती रंजीता सुनील चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27	पार्षद	पार्षद	26	छब्बीस	अजय फकीरा	भारतीय जनता पार्टी
28	पार्षद	पार्षद	27	सत्ताईस	मोहन डामोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29	पार्षद	पार्षद	28	अट्ठाईस	पूजा हिरा मौर्य	भारतीय जनता पार्टी
30	पार्षद	पार्षद	29	उन्तीस	बन्टी शान्तु डोड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
31	पार्षद	पार्षद	30	तीस	जमना रवि निनामा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-100.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् पीथमपुर, जिला धार के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पाषद निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पाषद	वार्ड क्रमांक अंकों में	केवल पाषद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् पीथमपुर, जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	कविता संजय वैष्णव	भारतीय जनता पार्टी
2		पाषद	1	एक	सुभाष मावी	भारतीय जनता पार्टी
3		पाषद	2	दो	रंजीता दीपक बिरला	भारतीय जनता पार्टी
4		पाषद	3	तीन	लीलाबाई कालूसिंह मारू	भारतीय जनता पार्टी
5		पाषद	4	चार	उमा सौनिक	भारतीय जनता पार्टी
6		पाषद	5	पांच	रंजना तेजराम राठौर	भारतीय जनता पार्टी
7		पाषद	6	छः	बालचंद्र प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
8		पाषद	7	सात	विपुल सुरेश पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पाषद	8	आठ	हेमंत अशोक पटेल	भारतीय जनता पार्टी
10		पाषद	9	नौ	क्षमा सुभाष जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पाषद	10	दस	मीरा श्री राम	भारतीय जनता पार्टी
12		पाषद	11	ग्यारह	मैना बाई मीणा	भारतीय जनता पार्टी
13		पाषद	12	बारह	अतुल शिवराम पटेल	भारतीय जनता पार्टी
14		पाषद	13	तेरह	लीला महेश पथरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पाषद	14	चौदह	मुकेश पांचाल	भारतीय जनता पार्टी
16		पाषद	15	पंद्रह	पप्पु असोलिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पाषद	16	सोलह	मनिषा डॉ. राकेश असोलिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पाषद	17	सत्रह	मनीषा लालु शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पाषद	18	अठारह	मोनिका कमल डावर	भारतीय जनता पार्टी
20		पाषद	19	उन्नीस	ममता धनसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पाषद	20	बीस	मोरसिंह	भारतीय जनता पार्टी
22		पाषद	21	इक्कीस	रणजीत भंडारी	भारतीय जनता पार्टी
23		पाषद	22	बाईस	गोविन्द भागीरथ परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पाषद	23	तेईस	माखनबाई भारतसिंह जाटवा	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25		पार्षद	24	चौबीस	हंसराज रायसिंह पटेल	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	कमलसिंह अंतरसिंह चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27		पार्षद	26	छब्बीस	मनोज श्याम सिंह धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	मनोज जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	पप्पु सिंह पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
30		पार्षद	29	उन्तीस	सीमा लखन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	रामकला बाई बाबुलाल चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इकतीस	सजन बाई बापू सिंह रघुवंशी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-101.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् मनावर, जिला धार के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

स. क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् मनावर, जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	संगीता पति शिवराम पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	नुराबाई पति मंगलसिंह अनारे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	विकास मधुकर शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	मीना चंद्रकुमार वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सुमन w/o महेन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	कोमल पति मोतीलाल बर्मन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सलीम खान एड्वोकेट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	सोनाली श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती उष्मल आशिश चौबे	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	कांतीलाल सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		पार्षद	10	दस	सोनल रवि मित्तल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अरशद पिता शकील	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	महेंद्र मोतीलाल पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	सुनील गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अनिता सुरेश पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	राजु पॉंचाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-102.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् सरदारपुर, जिला धार के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् सरदारपुर, जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	महेश भाबर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	देवकरण कालु यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	राखी नारायण यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	मुकेश भागीरथ यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अनिल गोखले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सविता रितेश वैष्णव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	रेशमा परवेज लालु मोदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	प्रम्या अखिलेश शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	अमरसिंह सोनेर बबलु	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	कविता निनामा पिंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	नरेन्द्र देवीसिंह पारगी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	शांताबाई सुरेश ताहाड़	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13		पार्षद	12	बारह	प्रिती मनीष श्रीवास्तव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	गोविन्द भग्गाजी मारू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	दुर्गा मदनलाल पारगी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पंद्रह	मनीषकुमार बैरागी लाला	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-103.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् राजगढ़, जिला धार के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् राजगढ़, जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	भंवरसिंह बारोड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	गोविन्द पाटीदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	रुखसाना बी जमालखां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	प्रेमलता	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	भारत नानुराम सिंगार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सवेरा महेश जायसवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	रचना मुकेश कावड़िया	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सोना भारतसिंह सिसोदिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती प्रीतिबाला-अजय चौहान	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	नरेन्द्रकुमार भंडारी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	प्रदिप रायली	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	धीरजकुमार नटवरलाल बोरणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	दीपाली विपिन पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14		पार्षद	13	तेरह	सुगना अमरसिंह गुण्डिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	अजय जगदीशप्रसाद जायसवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पंद्रह	देवीलाल प्यारचंद भिडोदिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

**अधिसूचना**

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-104.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् कुशी, जिला धार के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	केवल पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् कुशी, जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	मुकामसिंह किराड़े	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सविना फारूख मन्सूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सरीपन अगवान	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	लोकेश पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	विजय गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सीमा बाई पति ओमप्रकाश	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	फातेमा पति हुसैनी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	संजय सिर्वी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रेखा प्रफुल्ल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	लक्ष्मण डामोर	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	विजय सिटोले	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	तेजु बाई पति बाबुलाल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	शशीकला पति प्रेमकुमार माली	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	हरीश सेन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	रुखमणी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	चेना	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-105.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् धामनोद, जिला धार के माह जनवरी, 2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद	केवल पार्षद	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद् धामनोद, जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	दिनेश शर्मा (मथुरा)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रविराज	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	विष्णु कर्मा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	राधा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सुमन गिरवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	कविता विजय सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कल्लो बी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	नीतू महेन्द्र राठोड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	शारदा बाई	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	महेश	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	वन्दना मुकेश जोशी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अनिता सुरेश सर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सतिश चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	ममता	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	दिनेश भार्गव	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	देवकन्या मुकाती	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-65-एनएन-03-2017-पांच-106.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् डही, जिला धार के माह जनवरी, 2018 में कराये

गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् डही, जिला-धार.	अध्यक्ष	—	—	कैलाश कन्नोज	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रिना पति सजनसिंह सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	फरीदा बी रफीक मोहम्मद	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	संतोष उमरावसिंह	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	गायत्री	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	हिसामुददीन कुरेशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	कंचन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	रेखा गोपाल माहेश्वरी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	विनोद पन्नालाल	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	राकेश जमरा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	पुनमसिंह डोडवा पिता गणपतसिंह.	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रोहित कनाशिया	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	गिरिश डामोर	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अलका शैलेन्द्र सोनी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	रेणुका संदीप सस्त्या	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	किरण पति रेवसिंह (बालू भाई).	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( सुनीता त्रिपाठी )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.